

শিশুদেরে জন্থ বাইবলে
উপহার

যোনা
আউর বড়কা
মছলী



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: Jonathan Hay
Alastair Paterson

অভিযোজিত: Mary-Anne S.

অনুবাদিত: Sonu Rahi

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2025 Bible for Children, Inc.


লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।




ढेर बरस पहिले, योना नाम के एगो
आदमी इजराईल में रह हल। एक दिन,
परमेश्वर ऊनखा सभे से बड़का आउर
दुनिया में सभे से
शक्तिशाली सहर
निनवे देश जाय

लागी

कहलथिन।




योना के ऊ सभे लोगवन के चेतावनी
देवे लागी हलई जे परमेस्वर के नजर
में दुष्ट हल।



योना परमेश्वर के बतिया नऽ
मानलन! निनबे जाय के चलते योना
तर्शिश जाय बाला एगो जहाज जौन
उलटा दने जा रहल हल ओकरा पर
बैठ के चल देलन।



प्रभु परमेश्वर समुन्द्रबा में एगो भयानक तूफान भेजलन। ऊ
एगो बड़का तूफान हलई! जहाज के खेबइया डरे लगलन की
कही जहाज टूट के डूब न जाय।




तूफान के हालत खराब होते गेलई। सभे डरल नबिकवन
अपन-अपन देउतबन से प्राथना कैलन आउर जहाज हल्का
करे लागी सभे समनमा के पानीया में फेक देलन। तयियो
उनका कुछ फायदा नऽ मिलल।




योना ही खाली एगो आदमी हल जे जहाज पर रहते प्रार्थना
नऽ कैलन। एकर अलावे ऊ जहाज के निचे बाला हिस्सा में
बढ़िया नींद में सुत रहलन हल। जाहज के कप्तान उनका
अचानक देखलन। तू हियां सूत के का कर रहलऽ हे? उठऽ
अपन परमेश्वर से प्रार्थना करऽ! हो सकऽ
हे परमेश्वर हमनी के बारे में कुछो
सोचथिन जेकरा से हमनी
नाश होबे से बच जैबई।



नाबिकवन के बड़ी जल्दी पता हो गेल की ओखनी के दिक्कत योना से कही न कही जुडल हैं। ऊ ओखनी से बतैलन की ऊ परमेश्वर से दूर भाग रहलन हे। ऊ उनखा से पुछलन, हमनी तोरा साथे का करियो की "समुद्र हमरा ला शांत हो जाय?"



योना उत्तर देलन, "हमरा उठा के समुन्दर में फेक दऽ काहे
की हम जानऽ हि की हमरा बजह से ई महान तूफान तोहनी
सभे पर अईलो हैं।"



नाबिकबन योना के पानीया
में फेके लागी न चाहऽ
हलथिन। एही से ऊ बडी
मेहनत से जहाज खेवते
रहलन जेकरा से ऊ
जहाज किनारे जमीं
ले जा सके। बाकि
ऊ ऐसन न कर
सकलन; अब एके
गो चीज करेला
बाकि हल!




क्षमा प्रार्थना करे के बाद, नाबिकबन योना के ऊपर
उठैलन आउर एक दने से फेक देलन।

योना लहरबन
के निचे गायब
नियन हो गेलन।

समुन्द्र तुरते शांत आउर हवा
रुक गेल। मौसम में अचानक
बदलाब, तूफान से कही जादे ऊ
नाबिकबन के डेरा देलन। ऊ जान
गेलथिन होत की खाली परमेश्वर
ही अईसन कर सकऽ हथीन
ओखनी डर गेलन आउर
चकित होक परमेश्वर
के आराधना कैलन।




एही बीच, बात न माने
बाला दास के एगो
बड़का आश्चर्य मिलल।
बेसहारा होके समुन्द्रबा
के गहराई में योना के
पता हलई की उनका
डूबे से कुछो न बचा
सकऽ हैं। अब ऊ डूब
ही जायत हल बाकि
परमेश्वर भीर कुछ
आउर जोजना हल।



यहोवा योना के निगले लागी एगो बड़का मछली तैयार
कईले हलथिन। मछली सही समय पर आल!
एक ही घुट में योना समुन्द्र के बाहरे मछली
के पेट के अन्दर रहलन। उनका भीर
चिंतन-मनन आउर प्रार्थना
लागी ठेर समय हल।



तिन दिन के बाद योना आखिर में परमेश्वर के आज्ञा माने
लागी बादा कैलन। तखनी, परमेश्वर मछली के मन में बात
डाललन आउर ऊ योना के किनारे ले जा के उगल देलक।




एक बार फिरो, परमेश्वर योना के निनबे जाय
आउर परमेश्वर के बचन के प्रचार करे लागी
कहलन। ई बार योना चल गेलन! योना ऊँचे
अबाज में बोलते, शहर में प्रवेश करलन,
“चालीस दिन में, निनबे उलट देल जैतो।”



निनाबे के लोगबन परमेश्वर के समाचार पर बिश्वास
कईलन। ऊ अपन पाप के छमा लागी आउर परमेश्वर के देखाबे
लागी ऊ सभे उपबास कैलन आउर टाट पहनलन। हिंया ले
राजा भी परमेश्वर के आगे खुद के दिन कैलन । ऊ अपन राज
सिहासन से उतरके, टाट पहीनके आउर वानी पर बैठ गेलन।
ऊ सभे के आज्ञा देलन की
अपन बुरा रास्ता से हिंसा
से मुड़के आउर यहोबा से
प्रार्थना कर की ऊ

ओखनी के
माफ़ करथिन।




परमेश्वर ओखनी के माफ़ कैलन! निनबे के लोगबन में का खुशी
के अद्भुत दिन होतई जखनी लोगबन
के ई एहसास होलई होत



की परमेश्वर
ओखानी के माफ़
कर देलथिन हे
... बाकि एक आदमी
बड़ी गोसा
में हलन
योना!



योना काहे गुस्सा में हल? ऊ कहलन, परमेश्वर हमरा पता हल की तू एगो अनुग्रहकरी देर से गोसाय बाला, दया करे बाला आउर करुना निधान परमेश्वर हथीन। दुशारा सब्द में, योना जान हलन की परमेस्वर हमेसा लोगाबन के पाप छमा



करऽ हथिन जौन अपन पाप के स्वीकार करके परमेश्वर के आज्ञा मानऽ हथीन। अईसन लग हें की योना निनाबे के आदमी के पसंद न कर हलन। ऊ न चाहऽ हलन की ऊ छमा के प्राप्त करथन हल।



योना, परमेश्वर से इतना गुस्सा हलथिन की उनका से ई कहलन, "हमरा से हमर जान ले लऽ, जीवन से बढ़िया हमरा लागी मिरतु हैं।"




योना, शहर के बाहरे बैठ के इंतजार कर रहलन हल,
परमेश्वर आगे का करऽ हथीन। प्रभु परमेश्वर एगो बड़का
पत्ति बाला पेड़ तैयार कईलथिन। ऊ बडी फुर्ती से बढ़ लई,
आउर पूरा दिन धुप से योना
के छाया देलकई।




अगला भोर, परमेश्वर कीड़ा के भेजलन जेकरा से ऊ पेड़ के
सुखा देलक। फिरो, प्रभु एगो गरम, तेज हवा तखनी ला
चलल जखनी ले योना ई न सोचे की अब ऊ मर जैतई। ई
सभे मिल के योना के आउर क्रोधीत बना देलन।



तब परमेश्वर योना से कहलन, "का तोरा
भीर गुस्सा करे लागी कोय अधिकार होऽ?
तोरा ऊ बेल के पेड़ पर दया अबऽ
हो जेकरा तू बढाबे लागी कोय
मेहनत नऽ कैलऽ हे।



ऊ एक ही रात में उत्पन होलई आउर एक
ही रतिया में ऊ मर गेलई। त हम ई निनबे,
महान शहर जेकरा में हजारो लोगवन
रह हथीन ओकर पर दया
काहे न करियई?"



যোনা আউর বড়কা মछली

ঐশ্বররে বাক্য, বাইবলে থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

যোনা

“তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দিয়ে।”

গীতসংহতি 119:130





দ্য এন্ড



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদের তরৈ করছেন এবং যনি চান আপনিতাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছি, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে
পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয়ে স্বর্গে চলে গলেনে! আপনি যদি
যীশুতে বশ্বি বাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্ষমা চান, তিনি তা
করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বশ্বি বাস করনে যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রিয় যীশু, আমি বশ্বি বাস করযি। আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেন।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16

